

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

हाल ही में **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)** के आधिकारिक अनुमानों के अनुसार, भारत में औद्योगिक सुधारों की गति दिसंबर 2021 में तीव्रता से कम हुई, वहीं उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष केवल 0.4% की वृद्धि हुई और वननिर्माण गतिविधि में 0.1% का संकुचन हुआ।

- 2.5% की अपेक्षा के विपरीत विकास दर में केवल 0.4% की वृद्धि हुई जो कनिशाजनक है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक:

- IIP एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है।
- इसे **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय** के अंतर्गत **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO)**, द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है।
- यह एक समग्र संकेतक है जो निम्नलिखित वर्गीकृत उद्योग समूहों की विकास दर को मापता है:
 - **व्यापक क्षेत्र**, अर्थात् खनन, वननिर्माण और बजिली।
 - **उपयोग-आधारित क्षेत्र** अर्थात् मूल सामान, पूंजीगत वस्तुएँ और मध्यवर्ती वस्तुएँ।
- IIP के लिये आधार वर्ष 2011-2012 है।
- IIP का महत्त्व:
 - इसका उपयोग नीति-निर्माण उद्देश्यों के लिये वित्त मंत्रालय, भारतीय रज़िर्व बैंक आदि सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है।
 - त्रैमासिक और अग्रिम सकल घरेलू उत्पाद अनुमानों की गणना के लिये IIP अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।
- आठ प्रमुख क्षेत्रों के बारे में:
 - इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल मदों के भार का 40.27 प्रतिशत शामिल है।
 - आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योग उनके भार के घटते क्रम में: रफ़ाइनरी उत्पाद> बजिली> स्टील> कोयला> कच्चा तेल> प्राकृतिक गैस> सीमेंट> उर्वरक।

स्रोत: द हिंदू